



**MOONGIPA
SECURITIES LTD.**

Date : 31.05.2017

Scrip Code : 539199

To,

Listing Department,
BSE Limited,
25th Floor, P.J.Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001.

Sub : Submission of declaration of Audited Financial Results for the 4th quarter and Year ended 31st March,2017 published in newspaper Dainik Mahalaxmi Bhagyoday (Hindi) & Money Makers (English) on 31st May,2017.

Dear Sir/Madam,

Please find herewith declaration of Audited Financial Results for the Year Ended 31st March,2017 published in newspaper Dainik Mahalaxmi (Hindi) & Money Makers (English) on 31st May ,2017.

Kindly Acknowledge,

Yours Truly,

for Moongipa Securities Limited

Sanjeev Jain
Company Secretary & Compliance Officer

Enclosed:



Original Audited Financial Result published in Newspaper Dainik Mahalaxmi Bhagyoday (Hindi) & Money Makers (English) on 31.05.2017.

(CIN : L74899DL1994PLC057941)

Regd. Office : 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005. Ph. : 011-41450121
E-mail : moongipas@gmail.com, Website : www.moongipa.net

बलिाया: नाबालिग युवती की हत्या के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली

बलिाया, 30 मई। उत्तर प्रदेश के बलिाया में एक नाबालिग युवती की हत्या के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली...

युवक ने खुद को भी मारी गोली... प्रेमिका को गोली मारकर हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली...

मृगियापा कपीटल फाइनेंस लिमिटेड

(CIN:L16900DL1987PLC028680) 31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के अंतिम वित्तीय परिणाम

Table with 5 columns: विवरण, सहायक तिमाही, वित्तीय वर्ष, अंतिम तिमाही, वित्तीय वर्ष. Rows include balance sheet and P&L items.


मृगियापा सिस्कार्टिडी लिमिटेड

(CIN:L14899DL1994PLC057941) 31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के अंतिम वित्तीय परिणाम

Table with 5 columns: विवरण, सहायक तिमाही, वित्तीय वर्ष, अंतिम तिमाही, वित्तीय वर्ष. Rows include balance sheet and P&L items.

वाकरी केस: कोर्ट में आडवाणी ने आरोपों से किया इनकार

लखनऊ, 30 मई। पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने रमण सिंह के आरोपों में 6 अप्रैल, 1992 को विवाहित बाचा मिश्र में उनका कोई हाथ नहीं था...



रमण सिंह के आरोपों में आडवाणी ने इनकार किया है। उन्होंने आरोपों से कभी इनकार नहीं किया।


बहुत जल्द डिजिटल होगा यूपी का परिवहन विभाग

लखनऊ, 30 मई। अपने जलते कुलुह दिनों परिवहन विभाग पूरी तरह डिजिटल नजर आएगा। यह कहना है यूपी के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का...

इस मंच पर उन्होंने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाईं। कानून व्यवस्था के संवादा पर उन्होंने कहा कि अपराधियों और मुंडों को सजा दिलाने के वीरि सरकार लागू करेगी।

जेल में मुस्लिमों के साथ हिंदू कैदी भी लड़ रहे राजा

युजफकर्नर 30 मई। मुजफ्फरनगर के एक जेल में रमजान के पावन दिनों में अशुखी मिसाल देखने को मिली। यहां रमजान के दौरान 1,174 मुस्लिमों के साथ करीब 32 हिंदू कैदी भी पूरे दिन का उपवास रोजा रख रहे हैं।




रोजा रखने वाले मुस्लिम भाई दूध पीकर अपना रोजा तोड़ते हैं। इस अवसर पर आदमी पाक बनाने का काम कर रहे हैं।

गजब! पुलिसकर्मियों को सम्मानित करता नामचीन बदमाश कैमरे में कैद

थरुवा, 30 मई। एक तरफ सौंप पेशी आदिनाथन प्रदेश में कानून को राज स्थापित करने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर मयूरग पुलिस बट्यापों से दोस्ती कर रही है जो दस दिनों चर्चा का विषय बन चुके हैं।

हूआ है जिसको विवेचना गौवर्धन पुलिस कर रही है। आश्रम पंजीकाल पर अपने ऊपर हुए हमलों को लेकर पीड़ित भागा गौवर्धन में बल्लेबाज मयूरग और मुजफ्फरनगरी ब्रादरिड नाम तक इस बदमाश से सम्बन्ध की मदद की गुरु लता चुकी है...



मायला मयूरग के गौवर्धन थाना है। हालां ही में रोहन पर 307 और का है जहां पुलिस के विद्विं सभाह

है। हालां ही में रोहन पर 307 और का है जहां पुलिस के विद्विं सभाह आश्रम कब्जा ने का मामला भी दर्ज

Table with 5 columns: विवरण, सहायक तिमाही, वित्तीय वर्ष, अंतिम तिमाही, वित्तीय वर्ष. Rows include balance sheet and P&L items.

Table with 5 columns: विवरण, सहायक तिमाही, वित्तीय वर्ष, अंतिम तिमाही, वित्तीय वर्ष. Rows include balance sheet and P&L items.

SHAREKHAN LIMITED / SHAREKHAN COMMODITIES PVT. LTD. (NSE SEBI Registration No. MBINF/IN231073330 Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

Table with 4 columns: NAME OF AP, TRADE NAME, ADDRESS OF AP, AP REGISTRATION NO. Rows include Gidwani Veena and Gidwani Veena.

Table with 5 columns: विवरण, सहायक तिमाही, वित्तीय वर्ष, अंतिम तिमाही, वित्तीय वर्ष. Rows include balance sheet and P&L items.

Table with 5 columns: विवरण, सहायक तिमाही, वित्तीय वर्ष, अंतिम तिमाही, वित्तीय वर्ष. Rows include balance sheet and P&L items.

Table with 5 columns: विवरण, सहायक तिमाही, वित्तीय वर्ष, अंतिम तिमाही, वित्तीय वर्ष. Rows include balance sheet and P&L items.

Tightening the noose: Sebi cracks the whip on p-notes

New Delhi/ May 30
The Securities and Exchange Board of India (Sebi) on Monday proposed tighter regulations for participatory notes (p-notes), an instrument used by foreign investors to take exposure to the domestic market without registering in India. In a discussion paper, the market regulator proposed to bar p-notes, or offshore derivative instruments (ODIs), from taking speculative positions in the futures and options segment. It said p-note holders would be allowed to shift to derivatives market only for hedging and not for naked speculation. The ban on derivative trades without underlying equity could impact nearly a third of ODI subscribers, who currently deal only in derivatives, said experts. A large number of investors also deal in both cash and derivatives, but don't use derivatives for hedging purpose. "Through these changes, Sebi is trying to curb the volatility in the F&O market that emanates through ODIs. This, however, should not impact participants whose investment strategies allow for correlation between their positions in the cash segment vis-a-vis their positions in the F&O segment. For strategies that access F&O markets without underlying exposure, the only option seems to be to roll over to the FPI programme," said Richa Sancheti, head of investment funds practice, Nishith Desai Associates. The restrictions on the derivatives trade could also curb tax evasion, said legal experts. "Many ODI subscribers have been using derivatives since the amended tax treaties came in effect. These proposed changes by Sebi would plug such transactions," said Rajesh Gandhi, partner, Deloitte. Sebi also proposed to levy regulatory fees of \$1,000 (Rs 65,000) on every ODI subscriber. The fees will be levied on the foreign portfolio investor (FPI) issuing the ODI. The fees were aimed at encouraging registration of FPIs, Sebi said.

Swiggy raises \$50 million from Naspers, others

Bengaluru/May 30
Online food delivery start-up Swiggy (Bundl Technologies Pvt. Ltd.) Tuesday said it has raised \$50 million in a Series E funding round led by South African media company Naspers Ltd. The fresh funds could help the company gain financial edge over rival Zomato Media Pvt. Ltd. Existing investors Accel Partners, SAIF Partners, Bessemer Venture Partners, Harmony Partners and Norwest Venture Partners also participated in the funding round. Mint reported on 27 March that Swiggy is in talks to raise at least \$50 million from Naspers and existing investors. The company plans to make significant investments in technology, including automation, data sciences, machine learning and personalisation. "In a span of three years, Swiggy has been instrumental in changing the way Indians eat by delivering delightful consumer experiences. As the market leader, we are leveraging our deep understanding of the Indian consumer and the gaps in the market to introduce disruptive and highly differentiated service offerings," Sriharsha Majety, co-founder and chief executive at Swiggy, said in a statement. Swiggy is among the best-funded food



delivery start-ups in India, having raised at about \$155 million in equity from Accel Partners, Bessemer Venture Partners, Harmony Partners, RB Investments, Norwest Venture Partners, SAIF Partners and Apolletto, the personal investment firm of Russian billionaire and founder of DST Global, Yuri Milner. It has also raised about \$5 million in venture debt from Janus Ven Capital. This is second only to Zomato's \$224 million among home-grown food technology start-ups. However, while Zomato offers restaurant listings and food delivery, Swiggy is purely into food delivery business. Swiggy, which competes with Zomato and Foodpanda India, currently operates in eight cities—Bengaluru, Delhi, Mumbai, Chennai, Pune, Gurgaon, Hyderabad and Kolkata. The company is also piloting its own kitchens in Bengaluru. Food start-ups are among the segments worst hit by a

slowdown in funding, which have prompted companies to hold back an expansion while burning huge amounts of cash to lure customers through offers and discounts. Some investors released cash only when certain business goals were achieved. Some food start-ups such as Dazo and Eat24 shut shop, while others were acquired. For instance, hyperlocal grocery delivery start-up Grofers posted a near 65-fold increase in losses for the fiscal year ended March 2016, indicating heavy cash burn in food start-ups. Mint reported on 18 November, citing the Registrar of Companies, that citizens in smuggling is not regular. We are questioning the firm to ascertain if they have smuggled gold in the past as well," he added.

• Rupee slips 16 paise against US dollar in early trade

• Indian Petrochemical company to increase investment in Egypt

• States may gain Rs 350-450 bn in revenue

Restaurants, drug stores to go on strike in Tamil

CHENNAI/May 30
A visit to a restaurant or a pharmacy in the state is not expected to be fruitful on Tuesday. Eateries across the state will down shutters in protest against the goods and service tax (GST) that is set to kick in on July 1, while most pharmacies will close (some drug store owners plan to work sporting black badges) in protest against the Centre's move to regulate sales through an e-export. Aama eateries and Aama pharmacies will, however, function and the health minister has asked private pharmacies that plan to close to open by 4pm. The two-day strike of the packaged drinking water association has been called off. Nearly 1.5 lakh restaurants, bakeries and tea stalls in Tamil Nadu, including 50,000 in Chennai, have decided to close, demanding that GST for the sector be reduced. The Chennai Hotels Association president M Ravi said business would be affected due to the closure. Tamil Nadu Hotels Association president M Venkadesu Subbu said non-airconditioned hotels and partially air-conditioned hotels, with an annual turnover of \$0 lakh will pay 12% and 18% as tax. "It is a steep increase because non-air-conditioned hotels presently collecting taxes less than 1% have to pay 12% under GST."

63-year-old among two held for smuggling gold at IGIA

New Delhi/May 30
Customs sleuths at the Indira Gandhi International Airport (IGIA) arrested two men, including a 63-year-old, on Saturday for trying to smuggle gold bars worth Rs 93 lakh. The Pondicherry residents had come from Dubai via a Jet Airways flight. According to the Customs officers, the duo was intercepted at Terminal 3 on the basis of intelligence reports, just as they had crossed the green channel and were about to exit the airport. "One of them, a 63-year-old man, was wheelchair bound, and his aide was carrying his belongings and luggage. The two were stopped and requested to cooperate in a personal search and frisking of luggage. During the search, gold bars weighing 3.5 kg were recovered from the wheelchair-bound elderly passenger, who had concealed them in a specially-designed pocket in his shorts, which he was wearing under his trousers. He had crossed the green-channel on the wheelchair. Deputy Commissioner of Customs (IGIA) Govind Garg said, "Garg further said that it was later revealed that the elderly man did not require the wheelchair but was only using it to avoid suspicion. The 3.5 kg gold, which was seized, was assessed to be worth Rs 92.87 lakh. Both accused have been arrested. Ph. No. 4145912. Involvement of senior

MOONGIPA SECURITIES LIMITED

Regd. Off.-18/14, W.E.A, Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005
Ph. No. 4150121 Email:moongipa@gmail.com
website: www.moongipa.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

S. No.	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
		(Rs. in Lacs except figures for s.no 16)	(Rs. in Lacs except figures for s.no 16)	(Rs. in Lacs except figures for s.no 16)	(Rs. in Lacs except figures for s.no 16)
1	Income from Operations	65.53	62.87	69.89	976.00
2	Net Sales/Income from Operations	0.03	0.94	1.30	3.95
3	Other Operating Income	65.50	62.91	67.59	972.05
4	Total Income from Operations (net)	65.56	63.81	71.19	980.00
5	Expenses	66.28	72.68	71.42	851.83
6	Income/(Loss) from Operations before Extraordinary Items	12.79	5.96	3.32	26.79
7	Profit/(Loss) from operations before Extraordinary Items	12.79	5.96	3.32	26.79
8	Profit/(Loss) from operations before Extraordinary Items, Finance Costs and Exceptional Items (1-2)	(7.64)	(2.97)	(6.32)	(33.02)
9	Other Income	11.12	9.27	7.47	34.48
10	Profit/(Loss) from Ordinary Activities before Finance Cost and Exceptional Items	3.49	5.6	(0.91)	30.67
11	Finance Cost	0.24	0.06	0.06	0.33
12	Profit/(Loss) from ordinary activities after Finance Cost but before exceptional items (5-6)	3.25	5.54	(1.00)	30.24
13	Extraordinary Items	-	-	-	-
14	Profit/(Loss) from Ordinary Activities before tax (7-8)	3.25	5.54	(1.00)	30.24
15	Expenses	0.20	1.01	(3.21)	6.38
16	Income Tax	(1.20)	0	(0.56)	(1.20)
17	Profit/(Loss) for the Period (9-10)	0.05	0	(0.20)	0.05
18	Profit/(Loss) from Ordinary Activities before tax (9-10)	3.73	4.53	(0.88)	23.84
19	Extraordinary Items	-	-	-	-
20	Profit/(Loss) for the Period (11-12)	3.73	4.53	(0.88)	23.84
21	Reserves Excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet (Face Value Rs. 10/- each)	501.32	601.02	501.32	501.02
22	Reserves Excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet (Face Value Rs. 10/- each) (After Extraordinary Items)	193.24	202.47	193.24	202.47
23	Basic EPS (In Rs. Not Announced)	0.07	0.20	(0.01)	0.48
24	Diluted EPS (In Rs. Not Announced)	0.07	0.20	(0.01)	0.48

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED

Regd. Off.-18/14, W.E.A, Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005
Ph. No. 4150121 Email:moongipa@gmail.com
website: www.moongipa.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

S. No.	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
		(Rs. in Lacs except figures for s.no 16)	(Rs. in Lacs except figures for s.no 16)	(Rs. in Lacs except figures for s.no 16)	(Rs. in Lacs except figures for s.no 16)
1	Income from Operations	17.22	20.18	2.73	72.43
2	Net Sales/Income from Operations	17.23	20.18	2.73	72.43
3	Other Operating Income	15.63	7.38	9.30	40.88
4	Total Income from Operations (net)	0.59	0.27	0.20	2.25
5	Expenses	2.23	11.41	2.23	10.13
6	Income/(Loss) from Operations before Extraordinary Items	(1.64)	(10.86)	(1.83)	(7.88)
7	Profit/(Loss) from operations before Extraordinary Items, Finance Costs and Exceptional Items (1-2)	(1.64)	(10.86)	(1.83)	(7.88)
8	Other Income	49.01	8.57	5.51	75.17
9	Profit/(Loss) from Ordinary Activities before Finance Cost and Exceptional Items	47.37	(2.29)	3.68	67.29
10	Finance Cost	0.00	0.04	0.00	0.13
11	Profit/(Loss) from ordinary activities after Finance Cost but before exceptional items (5-6)	47.37	(2.33)	3.68	67.16
12	Extraordinary Items	-	-	-	-
13	Profit/(Loss) from Ordinary Activities before tax (7-8)	47.37	(2.33)	3.68	67.16
14	Expenses	(0.61)	(0.21)	0.13	0.47
15	Income Tax	(3.17)	(0.21)	(0.82)	(0.22)
16	Profit/(Loss) for the Period (9-10)	43.59	(2.75)	3.79	66.47
17	Profit/(Loss) from Ordinary Activities before tax (9-10)	41.38	(0.60)	3.56	66.00
18	Extraordinary Items	-	-	-	-
19	Profit/(Loss) for the Period (11-12)	41.38	(0.60)	3.56	66.00
20	Reserves Excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet (Face Value Rs. 10/- each)	305.48	305.48	305.48	305.48
21	Reserves Excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet (Face Value Rs. 10/- each) (After Extraordinary Items)	35.10	35.10	35.10	35.10
22	Basic EPS (In Rs. Not Announced)	1.36	0.34	(0.04)	2.33
23	Diluted EPS (In Rs. Not Announced)	1.36	0.34	(0.04)	2.33

GST FAQ: Answers to all your questions about India's biggest tax reform

New Delhi/May 30
1) What is Goods and Services Tax (GST)?
It is a destination based tax on consumption of goods and services. It is proposed to be levied at all stages right from manufacture up to final consumption with credit of taxes paid at previous stages available as set off. In a nutshell, only value addition will be taxed and burden of tax is to be borne by the final consumer.

2) What exactly is the concept of destination based tax on consumption? The tax would accrue to the taxing authority which has jurisdiction over the place of supply. The GST will replace the following taxes:
(i) Taxes currently levied and collected by the Centre, State and Union Territory. Duties of Excise (Medicinal and Toilet Preparations) Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Products) Additional Duties of Customs (commonly known as CVD) Special Additional Duty of Customs (SAD) Central Sales Tax Luxury Tax, Entry Tax (all forms) Entertainment and Amusement Tax (except when levied by the local bodies) Taxes on advertisements Purchase Tax, Taxes on lotteries, betting and gambling. State Surcharges and Cesses so far as they are late to supply of goods and services. (ii) State taxes that will be subsumed under the GST are: State VAT Central Sales Tax Luxury Tax, Entry Tax (all forms) Entertainment and Amusement Tax (except when levied by the local bodies) Taxes on advertisements Purchase Tax, Taxes on lotteries, betting and gambling. State Surcharges and Cesses so far as they are late to supply of goods and services. The GST Council shall make recommendations to the Union and States on the taxes, cesses and surcharges levied by the Centre, the States and the local bodies which may be subsumed in the GST.

VKJ INFRADEVELOPERS LIMITED

Regd Office: M-16/B, Ground Floor, Kalika Bhawan, Commercial Centre, Gautam Nagar Road, Yusuf Sarai, Delhi - 110049
CIN: L45400DL2010PLC200014
(Standalone Result for the quarter and year ended on 31.03.2017)

PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
		Audited	Audited	Audited
Total income from operations (net)	2,96,87,484.6	1,14,88,884	4,56,73,039	4,47,38,325
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	68,282,091.26	786,866	3,27,733.39	8,60,758.07
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary Items)	68,282,091.26	786,866	3,27,733.39	8,60,758.07
Paid Up Share Capital	178,497,700	178,497,700	178,497,700	178,497,700
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet as at 31st March, 2017)				
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each)				
Basic	0.00	0.01	0.02	0.05
Diluted	0.00	0.01	0.02	0.05
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)				
Basic	0.00	0.01	0.02	0.05
Diluted	0.00	0.01	0.02	0.05

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.vkjinfra.com).
By order of the Board
For VKJ InfraDevelopers Limited
DATE: 29th May, 2017
Place: DELHI
AGUSTEEN KACHHAR
Sd/-
Director

DCM FINANCIAL SERVICES LTD.

Regd. Office: D7/3 (Mezzanine Floor), Okhla Industrial Area, Phase - 2, New Delhi - 110020
CIN: L65921DL1991PLC043087
AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

PARTICULARS	Standalone (Rs. In Lacs)				Consolidated (Rs. In Lacs)			
	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended	Accounting Year Ended	Accounting Year Ended	Accounting Year Ended	Accounting Year Ended
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	March 31, 2017	March 31, 2016	March 31, 2016
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
		3 Months	12 Months	12 Months	12 Months	12 Months	12 Months	12 Months
1	Total Income from Operations (net)	-	-	-	-	-	-	-
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax/Exceptional Items)	42.26	32.48	214.28	262.79	214.63	263.31	-
3	Net Profit / Loss for the period before tax (after exceptional and for Extraordinary Items)	42.26	32.48	214.28	262.79	214.63	263.31	-
4	Net Profit / Loss for the period after tax (after exceptional and for Extraordinary Items)	30.58	31.94	170.23	206.19	170.63	209.71	-
5	Total Comprehensive Income for the period (Continuing Profit/Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	2,212.51	2,212.51	2,212.51	2,212.51	2,212.51	2,212.51	-
6	Equity Share Capital	-	-	(6,978.21)	(7,149.01)	(6,978.21)	(7,149.01)	-
7	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-	-	-	-	-
8	(i) Earning Per Share (of Rs. 10 each) (i) for continuing and discontinued Operations:	0.14	0.14	0.77	0.95	0.77	0.95	-
		Diluted:						
		0.14	0.14	0.77	0.95	0.77	0.95	-

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the website of Stock Exchange (http://www.bseindia.com and https://www.nseindia.com) and on the website of the company www.dcmfins.com
For & behalf of the Board
DCM Financial Services Ltd.
Sd/-
(Sunder Kumar)
Whole Time Director

SELECT INFORMATION FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

PARTICULARS	Quarter ended 31st March, 2017		Quarter ended 31st March, 2016	
	As at 31-03-2017	As at 31-03-2016	As at 31-03-2017	As at 31-03-2016
A. SHAREHOLDING				
1. Public Shareholding	281,225	281,225	281,225	281,225
2. Promoter and Promoter Group Shareholding	62,824	62,824	62,824	62,824
3. Pledged/Encumbered	-	-	-	-
4. Number of Shares	344,049	344,049	344,049	344,049
5. Percentage of Shares (as a % of the total shareholding of promoter and promoter group)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6. Percentage of Shares (as a % of the total Share Capital of the Company)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7. Non-Encumbered	344,049	344,049	344,049	344,049
8. Percentage of Shares (as a % of the total shareholding of promoter and promoter group)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
9. Percentage of Shares (as a % of the total Share Capital of the Company)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
B. INVESTOR COMPLAINTS				
1. Pending at the beginning of the Quarter	Nil	Nil	Nil	Nil
2. Received during the Quarter	Nil	Nil	Nil	Nil
3. Disposed of during the Quarter	Nil	Nil	Nil	Nil
4. Remaining unresolved at the end of the Quarter	Nil	Nil	Nil	Nil

Note: The above audited quarterly & yearly financial results have been reviewed by the Audit committee and approved by the board of directors at their respective meetings held on 29th May, 2017.

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS AT 31st MARCH 2017 (Rs. in Lacs)

PARTICULARS	As at 31-03-2017		As at 31-03-2016	
	Audited	Audited	Audited	Audited
A. EQUITY AND LIABILITIES				
1. Shareholders' Funds:				
a) Share Capital	178,497.70	178,497.70	178,497.70	178,497.70
b) Reserves and Surplus	226.51	202.47	226.51	202.47
2. Non-Current Liabilities	728.52	728.52	728.52	728.52
a) Long Term Borrowings	-	-	-	-
b) Deferred Tax Liabilities	-	-	-	-
c) Other Long Term Liabilities	-	-	-	-
d) Long Term Provisions	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Current Liabilities	6.00	6.00	6.00	6.00
a) Short Term Borrowings	-	-	-	-
b) Trade Payables	17.52	2.27	17.52	2.27
c) Other Current Liabilities	4.35	4.66	4.35	4.66
d) Short Term Provisions	-	-	-	-
Sub-Total: Current Liabilities	21.87	6.93	21.87	6.93
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	184			

मूंगीपा सिक्वोरिटीज लिमिटेड
(CIN: L74899DL1994PLC057941)

पंजीकृत कार्यालय: 18/14, डब्ल्यू ईश्वर प्रसाद रोड, कंगल बाग, नई दिल्ली-110005, फोन: 41450121
ई-मेल: moongipas@gmail.com, वेबसाइट: www.moongipa.net

31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणाम
(रु.सं. 16 के आंकड़ों को छोड़कर, लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2017		31-03-2016		31-03-2017		31-03-2016	
		अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	संचालनों से आय								
क)	कुल क्रय/संचालनों से आय	95.53	62.87	89.88	470.09	358.38			
ख)	अन्य संचालित आय	0.03	0.34	1.38	3.86	8.73			
	संचालनों से कुल आय (नेट)	95.56	63.21	91.37	373.95	366.84			
2	व्यय								
क)	शेयर प्रचय	98.36	72.68	71.52	351.93	304.52			
ख)	स्टॉक में बदल/घटत	(11.68)	(15.35)	15.69	(23.71)	42.06			
ग)	कर्मचारी लाभ व्यय	12.79	5.69	3.32	28.79	37.60			
घ)	ढास एवं अमोर्टिजेशन व्यय	0.69	0.25	0.20	1.39	0.83			
च)	अन्य व्यय	2.94	2.91	9.96	19.51	22.85			
	कुल व्यय	103.20	66.18	99.69	377.87	377.86			
3	संचालनों से लाभ/(हानि), अन्य आय, वित्तीय लागत एवं एक्सपानल आइटम्स से पूर्व (1-2)	(7.64)	(2.97)	(8.32)	(3.92)	(21.02)			
4	अन्य आय	11.13	8.57	7.41	34.49	37.03			
5	साधारण गतिविधियों से लाभ/(हानि), वित्तीय लागत एवं एक्सपानल आइटम्स से पूर्व	3.49	5.6	(0.91)	30.57	16.01			
6	वित्तीय लागत	0.24	0.06	0.09	0.33	2.56			
7	साधारण गतिविधियों से लाभ/(हानि), वित्तीय लागत एवं एक्सपानल आइटम्स के परभाव (5-6)	3.25	5.54	(1.00)	30.24	13.45			
8	एक्सपानल आइटम्स								
9	साधारण गतिविधियों से लाभ/(हानि), क्रूर से पूर्व (7-8)	3.25	5.54	(1.00)	30.24	13.45			
10	क्रूर व्यय								
क)	आय कर	0.70	1.04	(1.32)	8.38	3.22			
ख)	पूर्व वर्ष कर	(1.20)	0	0.08	(1.20)	0.08			
ग)	मैट क्रैडिट	(0.03)	0	1.2	(0.03)	1.20			
घ)	डेफर्रेड टैक्स	0.05	0	(0.28)	0.05	(0.28)			
11	साधारण गतिविधियों से लाभ/(हानि), क्रूर के परभाव (9-10)	3.73	4.53	(0.68)	23.04	9.23			
12	एक्सट्राओरिनरी आइटम्स (नेट ऑफ़ टैक्स एक्सपेंसिस)								
13	कुल लाभ/(हानि) अवाधि पूर्व (11-12)	3.73	4.53	(0.68)	23.04	9.23			
14	चुक्ता इक्विटी शेयर पूंजी (फस व्यय रु. 10/- प्रत्येक)	501.02	501.02	501.02	501.02	501.02			
15	संश्लिष्ट प्रमुखीकरण सुरक्षित शामिल नहीं करके पूर्व लेखा वर्ष के अनुसार	188.24	202.47	188.24	202.47	188.24			
16	बेसिन एंड डाइव्लिटिड प्रीपैस (एक्सट्राओरिनरी आइटम्स से पूर्व एवं परभाव) बौसिक प्रीपैस (रु. में वार्षिकता नहीं) डाइव्लिटिड प्रीपैस (रु. में वार्षिकता नहीं)	0.07	0.20	(0.01)	0.48	0.18			
		0.07	0.20	(0.01)	0.46	0.18			

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये चयनित जानकारी

क) शेयरहोल्डिंग का विवरण

क्र. सं.	विवरण	28.03.2017	28.03.2016	28.03.2017	28.03.2016
1	पब्लिक शेयरहोल्डिंग				
	शेयर संख्या	28,31,225	28,31,225	28,31,225	28,31,225
	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	52.62%	52.62%	52.62%	52.62%
2	प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप शेयरहोल्डिंग				
क)	प्रतिशत शेयरहोल्डिंग				
	शेयर संख्या	निल	निल	निल	निल
	शेयर प्रतिशत (प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह की कुल शेयरहोल्डिंग के प्रतिशत के तौर पर)	निल	निल	निल	निल
	शेयर प्रतिशत (कंपनी के कुल शेयरपूजी के प्रतिशत के तौर पर)	निल	निल	निल	निल
ख)	गैर ग्रुप प्रवर्तक				
	शेयर संख्या	23,78,965	23,78,965	23,78,965	23,78,965
	शेयर प्रतिशत (प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह की कुल शेयरहोल्डिंग के प्रतिशत के तौर पर)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	शेयर प्रतिशत (कंपनी के कुल शेयरपूजी के प्रतिशत के तौर पर)	47.48%	47.48%	47.48%	47.48%

ख) निवेशकों को शिकायतें

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही
तिमाही की शुरुआत में लंबित	निल
तिमाही के दौरान प्राप्त	निल
तिमाही के दौरान निस्तारित	निल
तिमाही के अंत में अनसुलझी पड़ी हुई	निल

नोट:

- उपरोक्त अंकेक्षित तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम अंकेक्षक कमेटी द्वारा रिव्यूड हैं तथा निदेशक मंडल द्वारा 29 मई 2017 को सम्मान संबंधित बैठकों में स्वीकृत किये गये।
- 31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों पर वित्तीय वर्ष से संबंधित अंकेक्षित आंकड़े और प्रकाशित संबंधित वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही तक के इंडर डेट आंकड़ों के बीच तुलनात्मक आंकड़े हैं।
- पूर्व अवाधि/वर्ष के आंकड़े, करंट अवाधि/वर्ष से तुलनात्मक बनाने के लिये, जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ी, रिव्यूड/रिअरेज्ड कर दिये गये हैं।
- कंपनी का मुख्य व्यापार शेयर ट्रेडिंग है और अन्य गतिविधियां मुख्य व्यापार के ईपिचंद्र घुमती हैं, इसलिये केवल एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट है।

31 मार्च 2017 को संपत्तियों और देनदारियों का विवरण (रु. लाखों में)

विवरण	31-03-2017 को	
	अंकेक्षित	अंकेक्षित
अ) इक्विटी एवं देनदारियाँ		
1 शेयरधारकों का कोष		
क) शेयर पूंजी	501.02	501.02
ख) रिजर्व एण्ड सरप्लस	225.51	202.47
उप-कुल - शेयर धारकों का फंड	726.53	703.49
2 गैर-मौजूदा देनदारी		
क) लम्बी-अवधि उधारी		
ख) डेफर्रेड कर देयताएं		
ग) अन्य दीर्घ कालिक देयताएं		
घ) दीर्घ कालिक अर्वाधान	0.60	0.59
उप-कुल - गैर-मौजूदा देयताएं	0.60	0.55
3 मौजूदा देयताएं		
क) अल्प कालिक उधारी	17.52	2.27
ख) व्यापार देय		
ग) अन्य मौजूदा देयताएं	4.35	4.58
घ) अल्प अवधि अर्वाधान		
उप-कुल - मौजूदा देयताएं	21.87	6.85
कुल इक्विटी एवं देयताएं	749.00	710.89
ख) सम्पत्तियाँ		
1 गैर-मौजूदा सम्पत्ति		
क) अचल सम्पत्तियाँ	2.58	3.58
ख) गैर-मौजूदा निवेश	278.89	199.79
ग) लम्बी-अवधि ऋण एवं अग्रिम	10.63	54.84
घ) डेफर्रेड टैक्स एसेट्स (नेट)	0.36	0.41
च) अन्य गैर-मौजूदा सम्पत्तियाँ	189.57	238.57
उप-कुल - गैर-मौजूदा सम्पत्ति	482.03	497.19
2 मौजूदा सम्पत्ति		
क) मौजूदा निवेश		
ख) इन्वेंट्रीज	157.56	133.85
ग) व्यापार प्राप्ताएं	69.03	3.25
घ) कैश और कैश समकक्ष	76.20	69.87
च) अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम	33.15	15.73
उप-कुल - मौजूदा सम्पत्ति	266.97	213.70
कुल सम्पत्ति	749.00	710.89

बोर्ड के लिखित और की ओर से हस्ता./
रुचि जैन
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 मई, 2017
पुंजाकालिक निदेशक
(DIN: 07291623)

MOONGIPA SECURITIES LIMITED
(CIN:L74899DL1984PLC057941)
Regd. Off.-18/14, W.E.A, Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005
Ph. No. 41450121
Email: moongipas@gmail.com; website: www.moongipa.net

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31st MARCH 2017

S. No.	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		31-03-2017	31-12-2016	31-03-2016	31-03-2016
		(AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)
Income from Operations					
a)	Net Sales/Income from Operations	96.58	82.87	89.98	370.09
b)	Other Operating Income	10.03	0.34	(1.39)	73.96
	Total Income from Operations (net)	96.56	83.21	91.37	373.95
Expenses					
a)	Purchase of Shares	99.36	72.68	71.52	351.93
b)	Increase/Decrease in Stock	(41.58)	(16.35)	15.69	(23.71)
c)	Employee Benefit Expenses	12.79	5.69	3.32	28.79
d)	Depreciation and Amortisation Expenses	0.69	0.25	0.20	1.35
e)	Other Expenses	2.94	2.91	6.96	19.51
	Total Expenses	103.20	65.18	99.69	377.86
	Profit/(Loss) from operations before other income, Finance Costs and Exceptional Items (1-2)	(7.64)	(2.97)	(8.32)	(3.92)
	Other Income	11.13	8.57	7.41	34.49
	Profit/(Loss) from Ordinary activities before Finance Cost and Exceptional Items	3.49	5.6	(0.91)	30.57
	Finance Costs	0.24	0.06	0.09	0.33
	Profit/(Loss) from ordinary activities after Finance Cost but before exceptional items (5-6)	3.25	5.54	(1.00)	30.24
	Exceptional Items	0.04	0.04	0.04	0.04
	Profit/(Loss) from Ordinary activities before tax (7-8)	3.25	5.54	(1.00)	30.28
	Tax Expenses	0.70	1.01	(1.32)	8.38
	Income Tax	(1.20)	0	0.09	(1.20)
	Previous Year Tax	(0.03)	0	0.12	(0.03)
	Net Credit	0.05	0	(0.28)	0.05
	Deferred Tax	0.05	0	(0.28)	0.05
	Profit/(Loss) from Ordinary activities after tax (9-10)	3.73	4.53	(0.68)	23.04
	Extraordinary Items (Net of Tax Expenses)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Net Profit/(Loss) for the Period (11-12)	3.73	4.53	(0.68)	23.04
	Paid-up equity Share Capital (Face Value Rs.10/- each)	501.02	501.02	501.02	501.02
	Reserves Excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet of previous accounting year	193.24	202.47	193.24	202.47
	Basic & Diluted EPS (Before & After Extraordinary Items)	0.07	0.09	(0.01)	0.04
	Basic EPS (In Rs. Not Annulised)	0.07	0.09	(0.01)	0.04
	Diluted EPS (In Rs. Not Annulised)	0.07	0.09	(0.01)	0.04

PART-II SELECT INFORMATION FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

A	PARTICULARS OF SHAREHOLDING	Quarter ended 31st March, 2017				
		31-03-2017	31-12-2016	31-03-2016	31-03-2016	31-03-2016
1	Public Shareholding	26.3125%	26.3125%	26.3125%	26.3125%	26.3125%
2	Percentage of Shareholding of Promoter and Promoters' Group Shareholding	52.82%	52.82%	52.82%	52.82%	52.82%
a)	Number of Shares	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b)	Percentage of Shares (as a % of the total shareholding of promoter and promoter group)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
c)	Percentage of Shares (as a % of the total Share Capital of the Company)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
b)	Non-Encumbered					
	Number of Shares	2378.965	2378.965	2378.965	2378.965	2378.965
	Percentage of Shares (as a % of the total shareholding of Promoter and Promoter Group)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Percentage of Shares (as a % of the total Share Capital of the Company)	47.48%	47.48%	47.48%	47.48%	47.48%

B	INVESTOR COMPLAINTS	Quarter ended 31st March, 2017
	Pending at the beginning of the Quarter	Nil
	Received during the Quarter	Nil
	Disposed of during the Quarter	Nil
	Remaining unresolved at the end of the Quarter	Nil

- Notes:**
- The above audited quarterly & yearly financial results have been reviewed by the Audit committee and approved by the board of directors at their respective meetings held on 29th May, 2017.
 - Figures of the quarter ended March 31, 2017 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures up to the third quarter of the relevant financial year.
 - Previous period/year figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary to make them comparable with current period/year.
 - The main business of Company is share trading and the other activities revolves around the main business, as such there is only one reportable segment.

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES AS AT 31st MARCH 2017 (Rs. in Lacs)

Particulars	As at 31-03-2017	
	31.03.2017 Audited	31.03.2016 Audited
A EQUITY AND LIABILITIES		
1 Shareholders' Funds		
a Share Capital	601.02	501.02
b Reserves and Surplus	225.51	202.47
Sub-Total: Shareholders' Funds	726.53	703.49
2 Non-Current Liabilities		
a Long Term Borrowings		
b Deferred Tax Liabilities (Net)	0.60	0.55
c Other Long Term Liabilities		
d Long Term Provisions		
Sub-Total: Non-Current Liabilities	0.60	0.55
3 Current Liabilities		
a Short Term Borrowings		
b Trade Payables	17.52	2.27
c Other Current Liabilities	4.35	4.58
d Short Term Provisions		
Sub-Total: Current Liabilities	21.87	6.85
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	749.00	710.89
B ASSETS		
1 Non-Current Assets		
a Fixed Assets	2.58	3.58
b Non-Current Investments	278.89	199.79
c Long Term Loans and Advances	10.69	54.94
d Deferred Tax Assets (Net)	0.36	0.41
e Other non-Current Assets	189.57	238.57
Sub-Total: Non-Current Assets	482.03	497.19
2 Current Assets		
a Current Investments	157.56	133.85
b Inventories		
c Trade Receivable	0.03	3.25
d Cash and Cash equivalents	76.20	60.67
e Short Term Loans and Advances		
f Other Current Assets	33.18	15.73
Sub-Total: Current Assets	266.97	213.70
TOTAL ASSETS	749.00	710.89

Place: New Delhi Date: 29th May 2017
 For & on behalf of the Board
 Sd/- RUCHI JAIN
 Whole Time Director
 (DIN-07291623)